



Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Final Certificate for COVID-19 Vaccination

Beneficiary Details

Beneficiary Name / लाभार्थी का नाम	Akanksha Negi
Age / उम्र	27
Gender / लिंग	Female
ID Verified / पहचान पत्र सत्यापित	Aadhaar # XXXXXXXX7980
Unique Health ID (UHID)	41-7551-1224-5360
Beneficiary Reference ID	7109781618033

Vaccination Details

Vaccine Name / वैक्सीन का नाम	COVISHIELD
Date of 1 st Dose / पहली खुराक की तारीख	14 May 2021 (Batch no. 4121P149A)
Date of 2 nd Dose / दूसरी खुराक की तारीख	15 Aug 2021 (Batch no. 4121P149A)
Vaccinated by / टीका लगाने वाले का नाम	TANUJA SAHU
Vaccination at / टीकाकरण का स्थान	Kabir Nagar Samudaik Bhwn RPR, Raipur, Chhattisgarh




“दवाई भी और कड़ाई भी।
Together, India will defeat
COVID-19”
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

In case of any adverse events, kindly contact the nearest Public Health Center/
Healthcare Worker/District Immunization Officer/State **Helpline No. 1075**

टीकाकरण पश्चात किसी प्रतिकूल घटना के होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य कर्मी/जिला टीकाकरण
अधिकारी/राज्य हेल्प लाइन 1075 पर सम्पर्क करें

COWIN
Winning Over COVID



This certificate can be verified by scanning the QR code at
<http://verify.cowin.gov.in>